FINANCIAL EXPRESS

in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per share (before/after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) -0.11 0.03 -0.05 Basic & Diluted

Notes:

5.09

6.65

08.49

700.00

261.84

sults for the

33 of the

form of the

te of Stock

he Board of

he Board

Limited

Vitin Jain

Director) 0935911

Sd/-

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of Bombay Stock Exchange Limited (BSE), www.bseindia.com and Company's website, www.primeindustrieslimited.com.

The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 9th August, 2022 and approved by the Board of Directors at its meeting held on the same date.

For Prime Industries Limited Sd/-

RAJINDER KUMAR SINGHANIA Managing Director DIN - 00077540

Place: Ludhiana Dated: 09.08.2022

LANDMARK

Landmark Property Development Company Ltd.

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi -110001 [CIN: L13100DL1976PLC188942] Telephone No.: (011) 43621200, Fax: (011) 41501333 Website: www.landmarkproperty.in, E-mail: info@landmarkproperty.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

(Rs. In Lakhs)

			Year ended		
SI. No.	PARTICULARS	30th June, 2022	31st March, 2022	30th June, 2021	31st March, 2022
	is to spoke 2	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income	6.75	57.97	22.16	159.53
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax & Exceptional Items)	(5.24)	(47.35)	12.35	(11.30)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(5.24)	(47.35)	12.35	(11.30)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(5.13)	(35.01)	9.32	(7.86)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	(5.13)	(35.30)	9.32	(8.15)
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	dyselvanie	See Subpet	HA, Chica historia	4,853.51
8	Earnings Per Shares (Face Value of Re. 1/- each) (not annualised) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	(0.01)	(0.03)	0.01 0.01	(0.01)

Note: There were no exceptional items during the quarter ended 30th June, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in

> For Landmark Property Development Company limited, Sd/-

Date: 10.08.2022

G. B. Rao Director

USS GLOBAL LIMITED

(Formerly Known as Surnidhi Investment Limited)

Regd Office Add.: Office No. 400, ITL Twin Towers, B-9, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, New Delhi - 110034

Phone: 011-45824477, Email: surnidhiinvestmentitd@gmail.com; Website: www.ussglobalitd.com

CIN: L74900DL1993PLC056491

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

(Rs. In Lakhs except earning per share)

		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
SI.	Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021
No.	. Particulars	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)
1	Total Income from Operations .	14.92	90.85	16.61
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.90	21.13	4.24
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary Items)	0.90	21.13	4.24
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0,90	14.73	4.24
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income	0.90	14.73	4.24

Other Equity(exact audited Balance Sh Earnings Per Share 8 (a) Basic (b)Diluted

Notes:

- The above unaudited approved by the Board
- ii) The Statutory Auditors accordance with Regu
 - The above is an extract filed with the Stock Exc 2015. The full format (www.bseindia.com,w/
 - iv) The Company is oper Company.
- v) The company does not
- vi) The standalone result 133 of the Companies (Indian Accounting Sta Regulations, 2015
- vii) Figures of the quarter date figures upto the th
- viii) Previous year / periods

Place: New Delhi Date: 10.08.2022

Regd. Office

(Listing Obligat

Extract o

Total Income fron Net Profit / (Loss

No

2

(before Tax, Exce Net Profit / (Loss

fafter Exceptiona Net Profit / (Loss (after Exceptiona

Total Compreher (Comprising Pro and Other Comp

6 Paid up Equity S Reserves (exclu

8 Securities Premi

9 Net worth

10 Paid up Debt Ca

11 Outstanding Red

12 Debt Equity Rati Earnings Per Sh 13

(for continuing a Başic:

Diluted: Capital Redemp

Debenture Rede 15 16 Debt Service Co

17 Interest Service *Quarter ended Basis

0 019

e Members ay, 2022 at (OAVM) in otice of the nual Report August 10th, with the

cipant and ss hours of sent to the ral Circular 0, 14/2020, nd April 13, 1/11 dated

dated May and other 3 read with Regulation

tions, 2015 s, facility to sses to be ame will be oting.

Place: New Delhi

er 02, 2022 ote e-voting

naterialized to avail the procedure AGM. mber of the

n the cut-off ice which is

ding login ID materialized d not casting ugh e-voting

right to vote eeting. Once be changed

he company ia.com. The

जनसता 11 अगस्त, 2022

भवा, बाल् जवाब के वर्ष के वंशाकरण क पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित किया गया है।

उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षक समिति द्वारा की गई है और बाद में निदेशक मंडल द्वारा 10 अगस्त 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया गया।

दिनांक 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त एकल वित्तीय परिणामों की समीक्षा संवैधानिक लेखापरीक्षक पी. के. नरूला एण्ड कंपनी द्वारा की गई है, जिन्होंने परिणामों पर एक असंशोधित राय प्रकट की है।

परोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ३३ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासिक / वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् (https://www.msei.in/ पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (https://ayushman.net.in/) पर उपलब्ध है।

क्ते आयष्मान इंफ्राटेक लिमिटेड

हस्ता./-प्रज्ञा अग्रवाल

(प्रबंध निदेशक)

(लाख रु. में)

डीआईएनः 00093526

स्थानः नई दिल्ली दिनाकः 10 अगस्त 2022

311)

आ)

आ)

कु को को

il.com

ते इलेक्ट्रॉनिक तसी अन्य इंमेल तिका पर्ते पर कर्ते हैं। प्रस्ताव

22/13936

की, हरि सिंह

सिंह मार्केट

nail.com.

2022/13936

gmail.com

र्गत)

न हुई

तेथि 05.

रियाणा

रियाणा

पीठ ।

की धारा

nail.com

LANDMARK लैंडमार्क प्रॉपर्टी ALMIA GROUI डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखंमा रोड, नई दिल्ली -110001 (सीआईएन: L13100DL1976PLC188942)

टेलीफोन नंबर: (011) 43621200, फैक्स: (011) 41501333

वेबसाइटः www.landmarkproperty.in, ई-मेलः info@landmarkproperty.in

30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्रं. विवरणों समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष 30 जून 2022 31 मार्च 2022 30 जून 2021 31 मार्च 2022 अलेखापरीक्षित लेखा-परीक्षित अलेखापरीक्षित लेखा-परीक्षित कल आय 57 9 6.75 159.53 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, और असाधारण मदें) 12.35 (5.24)(47.35)(11.30)कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (5.24)(47.35)(असाधारण मदों के बाद) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) 9:32 (7.86)(असाधारण मदों के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) 9.32 (8.15)के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर इक्विटी शेयर पूंजी (रु.1 प्रत्येक का अंकित मूल्य) 1.341.43 1,341.43 1,341.43 1,341.43 आरक्षितों (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर): 4.853.51 प्रति शेयर आय (रु. 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य) (वार्षिक नहीं): (0.01)(0.03)0.01 (0.01)(क): मूल (रु. में) (ख): डाइलूटड (रु. में) (0.01)(0.03)0.01 (0.01)

टिप्पणी : 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई असाधारण मद नहीं थे।

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.landmarkproperty.in पर उपलब्ध है।

कृते लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड,

हस्ता/-

जी. बी. राव निदेशक

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 10.08.2022

POONAWALLA HOUSING FINANCE पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6वां तल, जीरो वन् आईटी पार्ठ, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे—411036

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

परिशिष्ट—IV (नियम 8(1) देखें)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के उपरोक्त मिगमित / पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हैत प्रवर्तन अधिनयम 2002 (खाई इसमें इसके उपरांत "उक्त अधिनियम" के रूप में संवर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत

अविनार्य के स्वान प्रधाना) के अपित जार आजूषा (वर्ष (अवपन) ानवानावता 2002 के ानवम 3 के साथ पाठत उत्तर आधानयम का धारा 13(12) के अतगत प्रदत्त शतिवारों के प्रयोगान्यतित, एक मांग सूचना निम्न दिनांकित निर्मत की थीं, जिसमें निम्न ऋणकताओं को सूचना में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिमुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्तागण राषि का प्रतिमुगतान करने में विकल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिमृति हिंत प्रवर्तन नियमावती 2002 की उक्त नियमावती के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनयम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, 8 अगस्त 2022 को, आधिपत्य ग्रहण केर लिया है।

ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। आधिपत्य में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	संपत्ति का विवरण	आधिपत्य लिए जाने की तिथि	संवैधानिक मांग सूचना की तिथि	
1.	सोनपाल, धनौती	बंधक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो भूखंड सं. 94, आवासीय कॉलोनी विक्रम एन्वलेव ग्राम पसा. ेदा, परगना लोनी, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उ.प्र., गाजियाबाद पिच 201102 में स्थित हैं		08.11.2021	ऋण सं. HM/0399/H/16/100059 रु. 22,27,013/- (रुपए बाईस लाख सत्ताइस डजार तेरह मात्र) जो 07.11,2021 के अनुसार वसूली होने तक 12.80% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ भुगतानयोग्य है।

EXTRACTS OF UNAUDI

Total Income from Operati EBITOA# Net Profit / (Loss) for the p

Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the r

Extraordinary items) Total Comprehensive Incom period (after tax) and othe Paid up Equity Share Cap.

Other Equity Earnings Per Share (Face discontinued operations)-Basic Diluted

Total Income from Operati EBITDA#

Net Profit for the period be Net Profit for the period aft #EBITDA= Earning before In "Net Profit for the period befo

The above is an extract of the Exchanges under Regulation Financial Results for the o www.nseindia.com) as well as

These Consolidated unaudite their meeting held on August 2015 has been carried out by

Place: Gurugram Date: August 10, 2022

Scalin Ne

EXTRA FOR

S.No. Particulars 1. Total income from operat 2. Earning before Interest Net Profit /(Loss) for the 3. and/or Extraordinary ite

Net Profit /(Loss) for the and/or Extraordinary ite Total Comprehensive Inc 5.

the period (after tax) and 6. Equity share capital (Face Reserve (excluding Reva 7.

8. Earning per share (EPS

a) Basic b) Diluted

Gigaplex, 3rd Floor, Mugalsan Road, TTC Industrial Area, Airoli, Possession Notice Navi Mumbai-400708.

(For Immovable Property

Registered Office:- "Trishul", 3rd Floor, Opp Samartheshwar Temple, Near Law Garden Ellisbridge, Ahmedabad - 380006.

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Axis Bank Ltd., Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 19/04/2022 calling upon the Borrower/Mortgagor viz. 1) M/s. Samarth Trading Co. Through its proprietor Mr. Damji Devshi Nanda (Borrower), M-5, APMC Market II, Phase 2, Vashi, Navi Mumbai - 400 703, 2) Mr. Dinesh D. Nanda also known as Mr. Dayabhai D. Nanda (Guarantor/Mortgagor), 3) Mrs. Madhuri D Nanda (Guarantor/Mortgagor), 2) & 3) Resi at: Flat No. 8, Skyline CHS, NSS Road, Himalaya Society, Asalpha Village, Ghatkopar West, Mumbai - 400 084, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 1,04,62,378.04 (Rupees One Crore Four Lakh Sixty Two Thousand Three Hundred Seventy Eight and Paise Four Only) as on 05/04/2022 (including interest charged upto 30/11/2021), together with further contractual rate of interest thereon till the date of payment within 60 days from the date of the said notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor/Guarantor having failed to repay

the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrower/ Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the Act read with Rule 6 & 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 10/08/2022. The Borrower/Co-Borrower/ Mortgagor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property shall be subject to the charge of the Axis Bank Ltd. for an amount of Rs. 1,04,62,378.04 (Rupees One Crore Four Lakh Sixty Two Thousand Three Hundred Seventy Eight and Paise Four Only)

as on 05/04/2022 (including interest charged upto 30/11/2021), together with further contractual rate of interest thereon till the date of payment. The Borrower's attention is invited to the provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets. Description of the Property

All that Residential Flat No. 08, 2nd Floor, admeasuring about 650 Super built up, in the building known as "Skyline CHSL", Plot No. B - 7, Govind Nagar, Netaji Palkar Marg, Asalpha Village, Ghatkopar (W), Mumbai, in the name of Mr. Dayabhai D. Nanda, & Mrs. Madhuri D Nanda, together with the right to use common areas of the building, the right to use water closet, drainage, lavatories and other conveniences and facilities, amenities in or upon or pertaining to or connected to the flat / unit / office premises, both present and future and easementary rights and together with all fixtures and fittings, both present and future. Authorized Officer.

Date: 10/08/2022 Place: Ghatkopar, Mumbai

Axis Bank Ltd.

NEO INFRACON LIMITED CIN No: L65910MH1981PLC248089

(Formerly Known as ANUVIN INDUSTRIES LIMITED) REGD. OFF: 9, Mulji Thakersi Bldg., Sindhi Lane, Mumbai - 400 004 , (Maharashtra) (Rs.in lakhs)

		6	Conso	lidated	- 9		Stand	talone	
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	500000		ied	Year Ended
	1.000 (0.0	30.06.2022	31.03.2022 30.06.2021	31.03.2022	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	
12	0	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations(net)	85.53	167.09	0	745.27	36.45	36.79	0	163.01
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax	(17.99)	15.22	(9.19)	101.95	(10.84)	(2.34)	(9.19)	18.57
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax.	(17.99)	7.86	(9.69)	94.20	(10.84)	(2.34)	(9.19)	18.57
4	Total Comprehensive Income for the period	(17.99)	7.86	(9.69)	94.20	(10.84)	(2.34)	(9.19)	18.57
5	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	530.68	530.68	530.68	530.68	530.68	530.68	530.68	530.68
6	Reserves excluding Revaluation Reserves		18000		93.47			0000	101.62
7	Earnings per share(of Rs. 10/- each) (not annualised)								
	a. Basic & Diluted	(0.34)	0.15	(0.18)	1.78	(0.20)	(0.04)	(0.17)	0.35

The Company operates in only one reportable operating segment viz. "Construction Activities" and all other activities of the Company revolve around the main business. Hence, the disclosures required under the Indian Accounting Standard 108 on Operating Segment are not applicable.

QUANTUM DIGITAL VISION (INDIA) LIMITED CIN: L35999MH1980PLC304763

416. HUBTOWN SOLARIS, N S PHADKE ROAD, OPP-TELLI GALLI,

ANDHERI EAST, MUMBAI-400069, IN

Extract of the Unaudited Financial results for the guarter/year ended 30th June 2022

(2.27)

(2.27)

303.50

(0.07)

(0.07)

The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors

2) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock

3) The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standars (IndAS) notified under

Bio-Ethanol Ltd

Regd. Off. & Fact.: Plot No. 41/3 & 41/5, Village Lohop, Lohop Chowk Rd.,

Tal. Khalapur - 410 202. Dist. Raigad. Maharashtra

E-mail: tulaseebio@gmail.com CIN: L24115MH1986PLC048126 **EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR**

THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Quarter

ending/

ending

Unaudited

(6.61)

(6.61)

(6.61)

(6.61)

583.60

(481.42)

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s).

Quarter Ended

30.06.2022 [UNAUDITED] 30.06.2021 [UNAUDITED] 31.03.2022 [AUDITED] 31.03.2021 [AUDITED]

0.33

(6.08)

(6.08)

303.50

(0.18)

(0.18)

Previous year's figures are re-grouped, re-arranged, re-classified wherever necessary.

By order of the Board For Neo Infracon Limited

Bhavik Mehta

(Rs. In Lacs)

(25.58)

(29.59)

303.50

(0.97)

(0.97)

SD/-

Director

(₹ In Lakhs)

3 months

year

Audited

(5.30)

(5.30)

(5.30)

(5.30)

583.60

(460.66)

Sd/-

Place: Mumbai

Year to date Corresponding

figures/

Current year Previous year ended in the

ending for

30/06/2022 30/06/2022 30/06/2021

Audited

(6.61)

(6.61)

(6.61)

(6.61)

583.60

(481.42)

DIN: 07136389

(1,412.31)

Year Ended

34.79

13.93

13.93

303.50

(1,395.19)

0.46

For QUANTUM DIGITAL VISION (INDIA) LTD.

SHAKUNTLA PANNA DASSANI

Place: Mumbai

Particulars

Total Income from Operations

Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/

Net Profit / (Loss) for the period

items and/or Extraordinary items)

Reserves (excluding Revaluation

Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for

at its meeting held on 8th August 2022.

www.bseindia.com and the companies website www.gdil.in

companies (IndAS) Rules 2015 and subsequent ammendments.

Particulars

Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)] for the period (after Tax) and other Comprehensive Income)

Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the

Earnings per equity Share (of Rs.10/- each) (Not annualised)

(www.bseindia.com) and the Company's website(www.tulaseebio.com)

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)

Audited Balance sheet of the previous year

(a) Basic (b) Diluted Note:

date 01st April, 2016.

meeting held on 10.08.2022.

continuing and discontinued operations)

before tax (after Exceptional

Reserve) as shown in the

Audited Balance Sheet of

or Extraordinary items)

Equity Share Capital

the previous year

1) Basic:

PLACE: MUMBAI

DATE: 08.08.2022

Total Income from operations Net Profit / (Loss) for the period

2) Diluted:

No.

DIN: 07633644

Yaan Enterprises Limited

Formerly Known as 'Crown Tours Limited' CIN:L63040MH1989PLC364261

Regd. Office:- Shop-10, PL-22 Lakhanis Dolphin, SEC-13, New Panvel Navi Mumbai. Raigarh , Maharashtra-410206 Website: www.crownjaipur.org | e-mail: finance@yaanenterprises.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 30TH JUNE, 2022 (As in Lacs except per share data)

		Year Ended		
Particulars	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
Landov Accordance to	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net) Net Profit / (Loss) for the period	56.03	49.23	5.36	121.89
(before tax, Exceptional Item) Net Profit / (Loss) for the period After	0.36	(5.34)	(7.51)	(11.55)
Exceptional Item (before Tax) Net Profit / (Loss) for the period After Tax	0.36	(5.34)	(7.51)	(16.77)
(after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/ (loss) and other	0.26	(8.90)	(8.44)	(23.17)
Comprehensive Income for the period Equity Share Capital Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of	0.26 310.00	(8.90) 310.00	(8.44) 310.00	(23.17) 310.00
previous year Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and Discounted operations)	3.5	8	(0.0)	45.58
Basic Diluted	0.01 0.01	(0.29) (0.29)	(0.27) (0.27)	(0.07) (0.07)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results for the quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Audited Financial Results is available on the Stock Exchange website of BSE at www.bseindia.com and Company's website at www.crownjaipur.org. For and on Behalf of the Board of Yaan Enterprises Limited

> Formerly Known as 'Crown Tours Limited RANJITH SOMAN **Managing Director** DIN: 01714430

Esaar (India) Limited

Regd, Off: Shop No. 06, Prathamesh Avenue Datta Mandir Road, Malad East Mumbai Mumbai City MH 400097 Corp Off: 101, First Floor, Western Edge I, Western Express Highway, Borivali (East) Mumbai - 400066 Tel: 022-40676000 | esaarindialtd@gmail.com | www.esaar.in | L67120MH1951PLC222871

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

	Standalone					
Particulars	Quarter Ended	Quarter Ended	Year ended			
Faiticulais	30.06.2022	30.06.2021	31.03.2022			
	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)			
Total income from operations Net Profit / (Loss)	664.96	126.11	898.80			
(before tax and/or extraordinary items)	485.31	1,511.10	2,135.46			
Net Profit / (Loss) Before tax (after extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	485.31	1,511.10	2,135.46			
(after Extraordinary items)	485.31	1,511.10	2,100.76			
Equity Share Capital (Face Value of the shares Rs 10/-) Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown	2,044.25	2,044.25	2,044.25			
in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items)(of Rs 10/- each)	2,176.64	2,176.64	2,176.64			
Basic:	2.37	7.39	10.28			
Diluted:	2.37	7.39	10.28			
Earnings Per Share (after extraordinary items)(of Rs 10 /- each)	*10.00	1000000				
Basic :	2.37	7.39	10.28			
Diluted :	2.37	7.39	10.28			

Place: New Panyel

Date: August 09, 2022

 The above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited financial results for the guarter ended 30.06.2022 have been reviewed by Audit Committee in their meeting held on August 10, 2022 and have been approved by the Board of Directors in their meeting held on August 10, 2022. 2. The above extract has been filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure

Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended 30.06.2022 Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.esaar.in).

The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting For Esaar (India) Limited

Shruti Rahul Joshi

Place: Mumbai (Whole Time Director) Date: 10.08.2022 DIN: 09388260

EMPOWER INDIA LIMITED

CIN: L51900MH1981PLC023931 Regd Office: 25 /25A, IInd Floor, 327, Nawab Building, D.N.Road, Fort, Mumbai - 400 001

Phone: 022- 22045055, 22045044, Mobile/Helpdesk No.: 9702003139 Email: info@empowerindia.in; Website: www.empowerindia.in

Extracts of the Statement of Un-audited Financial Results

for the Quarter Ended 30th June, 2022 (Rs. in Lacs except EPS)

Particulars	Standalone Quarter Ended on		Consolidated Quarter Ended on		
	30.06.2022 (Un-audited)	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021	
Total income from operations (net)	281.27	0.00	281.27	0.00	
Net Profit/(Loss)for a period (before tax,					
Exceptional and/or Extraordinary items)	10.00	(2.73)	10.00	(2.73)	
Net Profit/(Loss)for a period before tax					
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.00	(2.73)	10.00	(2.73)	
Net Profit / (Loss) for the period after tax					
(after Exceptional and/or Extraordinary items)	10.00	(2.73)	10.00	(2.73)	
Total Comprehensive Income for the period					
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)					
and Other Comprehensive Income(after tax)]	10.00	(2.73)	10.00	(2.73)	
Equity Share Capital	11637.99	11637.99	11637.99	11637.99	
Earnings Per Share (of Rs.1 each)					
(for continuing and discontinued operations) -					
1. Basic:	0.001	(0.0002)	0.001	(0.0002)	
2. Diluted:	0.001	(0.0002)	0.001	(0.0002)	

The above result is an extract of the detailed format of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter ended 30th June, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results is available on website of Stock Exchange and on Company's website www.empowerindia.in.

Figures of the previous year have been re-grouped/ re-arranged / re-classified wherever considered necessan For Empower India Limited

Raigopalan Ivengar

Director Place: Mumbai DIN: 00016496 Date: 10th August, 2022

Provincial Finance and Leasing Co Private Limited 34th Floor, Sunshine Towers, Senapati Bapat Marg, Dadar (w) Mumbai-400 013 Email: info@alt-alpha.com (B) +91 22 6145 8900 CIN: U65923MH1993PTC075162

THE QUARTER AND YEAR ENDED JUNE 30, 2022

EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR

1				(Rs. in Lakhs
Particulars	Quarter Ended June 30, 2022	F-20 20 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Quarter Ended June 30, 2021	
		Unaudited		Audited
Total Income from operations (net)	5,453.35	162.95	17.62	191.69
Net Profit/(-Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,313.86	-8.16	13.44	5.47
Net Profit/(-Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	983.37	-6.11	10.06	4.09
Total Comprehensive Income for the period {Comprising Profit / (-Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	608.24	-118.41		-108.21
Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- each)	1,343.64	1,343.64	313.64	1,343.64
Reserve (excluding Revalution Reserve)	26,126.11	19,457.27	107.54	19,457.27
Securities Premium Account	25,596.77	19,536.17	78.22	19,536.17
Net worth	27,469.75	20,800.91	421.12	20,800.91
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,08,454.88	71,445.86	-	71,445.86
Outstanding Redeemable Preference Shares				
Debt Equity Ratio	3.95	3.43	NA	3.43
Earning per share (EPS) (Face Value of Rs.10/-each)				
Basic : EPS (Rs.)	7.32	-0.19	0.32	0.13
Diluted : EPS (Rs.)	7.32	-0.15	0.32	0.10

The Un-audited Financial Results of the Company for the guarter ended June 30,2022 and the Limited Review Report thereon of the Statutory Auditors of the Company are approved by the Board of Directors of the Company in its Board Meeting held on August 10, 2022. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under

Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ('Listing Regulations'). The full format of the guarterly Un-audited Financial Results is available on the website of the NSE (www.nseindia.com) and of the Company (www.fin.alt-alpha.com) For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, required / pertinen

disclosures have been made to the NSE (www.nseindia.com) and can be accessed on the website of the

Company (www.fin.alt-alpha.com). The figures for the previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors Date: 10th August 2022 Shreyans Hitendrakumar Mehta JAYASWAL NECO INDUSTRIES LIMITED

CIN:- L28920MH1972PLC016154

Regd. Office: F-8, MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur - 440 016 (India). E-mail: contact@necoindia.com | Website: www.necoindia.com

(₹ in Lakhs, except per equity share data) Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30" June, 2022

OHADTED VEAD OHADTED

	PARTICULARS	ENDED 30.06.2022	ENDED 31.03.2022	ENDED 30.06.2021
		UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED
1.	Total Income from Operations	153063	596483	139623
2.	Net Profit for the period (before tax and Exceptional items)	3247	58635	12309
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional items)	3247	231085	13419
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional items)	2324	224728	13436
5.	Total Comprehensive Income for the period/year	115070000	111000000000000000000000000000000000000	Pro-0.000
53516	[Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2336	224776	13487
6.	Equity Share Capital	97099	97099	63863
7.	Other Equity (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet)		86219	
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)	1		
	a) Basic after Exceptional items (Not Annualised)*	0.24*	28.40	2.10*
	b) Basic before Exceptional items (Not Annualised)*	0.24*	6.60	2.10*
	c) Diluted after Exceptional items (Not Annualised)*	0.24*	23.57	2.10*
	d) Diluted before Exceptional items (Not Annualised)*	0.24*	5.81	2.10*

Notes: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges on 9" August, 2022 under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and the Company's Website (www.necoindia.com) (b) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 9" August, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the above results. For Jayaswal Neco Industries Limited

Arvind Jayaswal

PLACE: NAGPUR Managing Director and CEO DATE: 9" August, 2022 DIN: 00249864



Regd. Off.: 98/4, Prima House, Daman Industrial Estate, Kadaiya, Nani Daman, Daman (Union Territory) - 396 210. CIN - L25206DD1993PLC001470 Tel.: 0260 - 2220445 Fax: 0260 - 2221845 E-mail: investor@primaplastics.com Website: www.primaplastics.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2022 Rs. in Lakhs

Consolidated

		- Communication				3011001100110		
SR.	PARTICULARS	Three Mor	nths Ended	Year Ended	Three Mor	nths Ended	Year Ended	
NO.	PARTICULARS	30-06-2022	30-06-2021	31-03-2022	30-06-2022	30-06-2021	31-03-2022	
- 2		Unau	dited	Audited	Unau	dited	Audited	
1.	Total Income	2,284.35	1,633.20	11,122.52	3,278.79	2,358.47	14,781.34	
2.	Net Profit / (Loss) for the Period	(245.87)	(166.50)	(167.73)	45.05	175.47	1,050.29	
	(before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	43431040000		(3) (3)	00.00		**************************************	
3.	Net Profit / (Loss) for the Period	(245.87)	(166.50)	(167.73)	45.05	175.47	1,050.29	
	(before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items)	621.000.000	157.007.701.00	0807, 1083	55,0000	100000000	0.000.000	
4.	Net Profit / (Loss) for the Period	(254.49)	(154.92)	(171.80)	7.57	159.27	900.65	
	(after tax, after Exceptional and / or Extraordinary items)							
5.	Total Comprehensive income for the period	(254.49)	(154.92)	(154.09)	44.48	164.37	956.61	
6.	Equity Share Capital	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	
7,	Reserves excluding Revaluation Reserves as per	7/2	1000	322	203	100	0.00	
	Balance Sheet of Previous Year	3		5,604.21	8		10,825.75	
8.	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)							
	Basic Diluted (not annualised) (In Rs.)	(2.31)	(1.41)	(1.56)	(0.02)	1.38	7.88	

The above is an extract of the detailed format of quarterly & annual financial result filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website "www.primaplastics.com".

The previous period's / year's figure have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

By order of the Board for PRIMA PLASTICS LIMITED Sd/-

Bhaskar M. Parekh Place: Mumbai Chairman Date: August 09, 2022 DIN: 00166520



CIN: L63032MH1986PLC154910

Regd. & Corp. Office: A-901-905, 9th Floor, 215, Atrium, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400093 Tel: (91) 22-66941800 / 33041800 | Fax: (91) 22-66941818 / 33041818 | Website: www.seamec.in | Email: contact@seamec.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

(Rs. In lakh, except per share data) Standalone Consolidated Sr. Quarter ended Year Ended Quarter ended Year Ended **Particulars** 30.06.2022 30.06.2021 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 31.03.2022 Total Income from Operations (Net) 11,120 6,255 29.352 12,540 7,299 34,962 Net Profit for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items) 1.753 1,932 7,687 2.091 1,446 8,480 Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,753 1,932 7.687 2.091 1,446 8.480 Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1,940 1,756 7.575 2,279 1,270 8,370 Total Comprehensive Income for the period

(Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 1,940 1,762 7,574 1,351 8,686 2,729 Equity Share Capital (face value of Rs. 10 per share) 2,543 2.543 2,543 2,543 2.543 2,543 Other Equity excluding Revaluation Reserve* 62,050 72,304 Earnings Per Share Basic 7.63 6.91 29.80 8.96 4.99 For the year ended March 31, 2022, Other Equity excluding Revaluation Reserve on standalone basis is Rs. 62,050 lakhs and on

consolidated basis is Rs. 72.304 lakhs.

The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated financial results for the guarter ended June 30, 2022.

filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations) Regulations. 2015. The full format of standalone and consolidated financial results is available on the Stock Exchanges' websites -(www.bseindia.com/www.nseindia.com) and the Company's website (www.seamec.in). The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors at

their respective meetings held on August 10, 2022,

For and on behalf of Board of Directors

Naveen Mohta

Whole Time Director

Date : August 10, 2022

Place: Mumbai

LANDMARK Landmark Property DALMIA GROUP Development Company Ltd.

Regd. Office: 11th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi -110001 [CIN: L13100DL1976PLC188942] Telephone No.: (011) 43621200, Fax: (011) 41501333

Website: www.landmarkproperty.in, E-mail: info@landmarkproperty.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2022

	(h						
			Year ende				
SI. No.	PARTICULARS	30th June, 2022	31st March, 2022	30th June, 2021	31st March, 2022		
	1	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1	Total Income	6.75	57.97	22.16	159.53		
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax & Exceptional Items)	(5.24)	(47.35)	12.35	(11.30)		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	(5.24)	(47.35)	12.35	(11.30)		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	(5.13)	(35.01)	9.32	(7.86)		
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period (after tax and Other Comprehensive Income (after tax)	(5.13)	(35.30)	9.32	(8.15)		
6	Equity Share Capital (Face Value of Re. 1/- each)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-		- 9	4,853.51		
8	Earnings Per Shares (Face Value of Re. 1/- each) (not annualised) (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	(0.01) (0.01)	(0.03) (0.03)	0.01 0.01	(0.01) (0.01)		

Note: There were no exceptional items during the guarter ended 30th June, 2022.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Annual Financial Results is available on the stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the company's website www.landmarkproperty.in

For Landmark Property Development Company limited,

Place: New Delhi G. B. Rao Date: 10.08.2022 Director

Date: 10.08.2022 fPlacenRaigadexp.epapr.in DIN: 01929335

By Order of the Board of Directors For Tulasee Bio-Ethanol Ltd. Kapil Nagpal (Director)

1) The above is an Extract of the detailed format of results for quarter ended on 30th June 2022 filed with the

Stock Exchanges under Regulation - 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulation, 2015. the full format of the standalone quarterly results are available on the website of BSE Ltd.

2) The financials have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015

3) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their

IND-AS to the extent applicable. The Company has adopted IND-AS beginning 01st April, 2017 with transition